



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 नवंबर 2022

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें – नवंबर 2022

नवंबर 2022 माह के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की उधार और जमा दरों संबंधी आंकड़े।

मुख्य विशेषताएं:

उधार दरें:

- एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) सितंबर 2022 में 8.59 प्रतिशत से 9 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर अक्तूबर 2022 में 8.68 प्रतिशत हो गई।
- एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर सितंबर 2022 में 9.22 प्रतिशत से 13 बीपीएस बढ़कर अक्तूबर 2022 में 9.35 प्रतिशत हो गया।
- एससीबी की निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) का 1-वर्ष का औसत अक्तूबर 2022 में 7.90 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2022 में 8.05 प्रतिशत हो गया।

जमा दरें:

- एससीबी की बकाया रुपया सावधि जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) सितंबर 2022 में 5.39 प्रतिशत से 10 बीपीएस बढ़कर अक्तूबर 2022 में 5.49 प्रतिशत हो गई।